



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कंपनी सचिवालय

दिनांक:- 13.02.2020

सं.:1:05:126 (3):1:सीएस

कार्यालय आदेश सं. सीएस/सं.01/आईटीसी/2020

विषय: - ट्रेडिंग विंडो का खुलना

कंपनी सचिवालय यूनिट के दिनांक दिसंबर 30, 2019 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित अनुसार, "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" ('संहिता') की शर्तों के अनुसार, पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक जनवरी 1, 2020 से दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा के पश्चात अड़तालिस (48) घंटे की समाप्ति तक बंद थी।

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, फरवरी 12, 2020 को आयोजित की गई जिसमें दिनांक दिसंबर 31, 2019 को समाप्त अवधि एवं तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) को मंजूरी दी गई और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश को भी घोषित किया गया। दिनांक 12 फरवरी 2020 को बोर्ड बैठक के परिणाम को घोषित किया गया और उसे स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो दिनांक 15.02.2020 से पुनः खुल गई है।

मनोहर बलवानी

**मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और
कोड हेतु अनुपालन अधिकारी**

वितरण- कंपनी की वेबसाइट/ नोटिस बोर्ड के माध्यम से:

1. पीएफसी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य
2. सभी संबंधित व्यक्ति ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" में यथापरिभाषित) और सहायक कंपनियों के निदेशक एवं कार्मिक।
3. कंपनी सचिव, आरईसी लिमिटेड, इस परिपत्र को आरईसी में सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. नोटिस बोर्ड
5. पीएफसी के सांविधिक लेखापरीक्षक / सचिवालय लेखापरीक्षक
6. रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एवं टीए)/ पीएफसी के डिबेंचर ट्रस्टीस/ पीएफसी के बैंकर
7. पीएफसी इंटरनेट पर पोस्ट करने हेतु सीजीएम (एमएस)